



प्रथम कम्पनी एवं दो प्लाटून, छठीं कम्पनी, 100वीं वाहिनी, राष्ट्रीय कैडेट कोर

उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी-221002

(महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध एक स्वायत्तशासी संस्था)

1<sup>st</sup> Coy. & 2pl 6<sup>th</sup> coy.100 UP BN NCC

UDAI PRATAP COLLEGE, VARANASI – 221002

(An Autonomous Institution affiliated to MGKVP)



दिनांक: 15.09.2022

## सूचना

महाविद्यालय में वर्तमान सत्र(2022-23) में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय की एन.सी.सी. यूनिट्स में नामांकन हेतु **ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25.09.2022 तक बढ़ाई जाती है।**

### आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

- 1) एनसीसी में नामांकन हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार के एन.सी.सी. निदेशालय द्वारा दी गई वेबसाइट [www.nccauto.gov.in/enrolment](http://www.nccauto.gov.in/enrolment) में ही किया जाना है।
- 2) एन.सी.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु केवल स्नातक (बी. ए./बी. एससी./बी. कॉम) प्रथम वर्ष तथा बी. एससी. (कृषि) प्रथम एवं द्वितीय दोनों वर्षों के छात्र-छात्राएँ ही योग्य हैं।
- 3) एन.सी.सी. में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र (डॉक्यूमेंट) स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने हेतु तैयार रखें-
  - i. पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो
  - ii. आधार कार्ड
  - iii. बैंक पासबुक
  - iv. महाविद्यालय में प्रवेश की फीस रसीद या परिचय पत्र
  - v. भर्ती का स्वीकृति पत्र
  - vi. चिकित्सा प्रमाण पत्र
  - vii. सी. डब्ल्यू. एस. फार्म

(एन.सी.सी. भर्ती स्वीकृति पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं सी. डब्ल्यू. एस. फॉर्म ऊपर दी गयी एन.सी.सी. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इन्हें डाउनलोड करके, प्रिंट करके पूरी तरह से भरने के उपरांत स्कैन करके अपलोड किया जाना है) उपरोक्त सभी कागजात जेपीईजी इमेज या पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन होने चाहिए तथा साइज 2 एमबी से कम होना चाहिए।

- 4) सभी कैडेट यह ध्यान दें कि अपने निजी ईमेल आईडी से ही नामांकन फार्म भरें, साइबर कैफे या दुकानदार के ईमेल आईडी से फार्म न भरें क्योंकि एन.सी.सी. की पंजीकरण संख्या व एन.सी.सी. प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की सूचनाएं पंजीकृत ईमेल आईडी पर ही दी जाएंगी।
- 5) ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सूचनाओं का चयन इस प्रकार करें-
- 6) निदेशालय (डायरेक्ट) में: Uttar Pradesh



प्रथम कम्पनी एवं दो प्लाटून, छठीं कम्पनी, 100वीं वाहिनी, राष्ट्रीय कैडेट कोर

उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी-221002

(महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध एक स्वायत्तशासी संस्था)

1<sup>st</sup> Coy. & 2pl 6<sup>th</sup> coy. 100 UP BN NCC

**UDAI PRATAP COLLEGE, VARANASI – 221002**

(An Autonomous Institution affiliated to MGKVP)



- 7) बटालियन का नाम: 100UP BN NCC
- 8) ग्रुप: Varanasi B
- 9) कैडेट टाइप: **SD-छात्रों के लिए,**  
**SW- छात्राओं के लिए**
- 10) स्कूल/ कॉलेज का नाम: Uday Pratap Degree College SD -छात्रों के लिए  
Uday Pratap Degree College SW- छात्राओं के लिए
- 11) विंग (Wing): Army
- 12) NOK (next of kin)- अपने माता या पिता में से किसी एक का नाम लिखना है, यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अभिभावक का नाम लिखना है।
- 13) NRS- नजदीकी रेलवे स्टेशन का नाम ।
- 14) छात्र या छात्रा का नाम आधार कार्ड और बैंक पासबुक में एक समान होना चाहिए अन्यथा फार्म निरस्त हो जाएगा।
- 15) छात्र-छात्राएं ध्यान दें कि यह आवेदन पत्र संबंधित एसोसिएट एन.सी.सी. अधिकारी के द्वारा जांच के उपरांत यदि सभी सूचनाएं सही पाई जाती हैं तो भर्ती के लिए अग्रेषित किया जाएगा ।
- 16) एन.सी.सी. भर्ती की निर्धारित तिथि पर छात्र-छात्राओं को दिए गए स्थान (महाविद्यालय क्रीडा मैदान) पर भर्ती परीक्षा (शारीरिक एवं लिखित) में सम्मिलित होना होगा।
- 17) भर्ती परीक्षा (शारीरिक एवं लिखित दोनों) में पास होने के बाद ही एन.सी.सी. में पंजीकरण किया जाएगा ।
- 18) भर्ती परीक्षा की तिथि की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट ([www.upcollege.ac.in](http://www.upcollege.ac.in)) पर दी जाएगी।
- 19) भर्ती परीक्षा के समय सभी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश की फीस रसीद (मूलप्रति) एवं महाविद्यालय का परिचय पत्र (आई कार्ड) लाना आवश्यक है, फीस रसीद (मूलप्रति) व परिचय पत्र के आभाव में परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

*msingh* *Asingh*

एसोसिएट एन.सी.सी. अधिकारीगण